

प्रेस विज्ञप्ति

01.09.2026 – अखिल भारतीय

भारतीय जीवन बीमा निगम ने दो नई योजनाएँ शुरू कीं

एलआईसी की बीमा प्लेटिनम (प्लान 770 – यूआईएन: 512N397V01)

एवं

एलआईसी की जीवन रक्षा (प्लान 894 – यूआईएन: 512N368V01)

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के 70वें स्थापना वर्ष के अवसर पर एलआईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, श्री आर. दुरैस्वामि ने दो नई योजनाएँ, एलआईसी की बीमा प्लेटिनम (प्लान 770) एवं एलआईसी की जीवन रक्षा (प्लान 894) शुरू कीं। दोनों योजनाओं की प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:

एलआईसी की बीमा प्लेटिनम (प्लान 770 – यूआईएन: 512N397V01)

एलआईसी की बीमा प्लेटिनम एक गैर-भागीदारी (Non-Par), गैर-लिंक्ड (Non-Linked), व्यक्तिगत योजना है, जो बचत एवं सुरक्षा का आकर्षक संयोजन प्रदान करती है। यह एक सीमित प्रीमियम भुगतान योजना है, जिसमें प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान प्रत्येक ₹1,000 के वार्षिक प्रीमियम पर ₹70 की दर से गारंटीकृत वृद्धि (Guaranteed Additions) प्राप्त होती है। गारंटीकृत वृद्धि प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान संचित होगी।

इस योजना की एक आकर्षक विशेषता बूस्टर आय लाभ (Booster Income Benefit) है। बीमित व्यक्ति के प्रीमियम भुगतान अवधि + 5वें वर्ष के अंत तक जीवित रहने पर मूल बीमित राशि (Basic Sum Assured) के 70% के बराबर बूस्टर आय लाभ देय होगा।

यह योजना नियमित आय लाभ (Regular Income Benefit) भी प्रदान करती है। भुगतान अवधि (पॉलिसी अवधि में से प्रीमियम भुगतान अवधि घटाने पर प्राप्त अवधि) के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में मूल बीमित राशि के 10% के बराबर नियमित आय लाभ देय होगा।

इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम मूल बीमित राशि **₹3,00,000** है। अधिकतम मूल बीमित राशि की कोई निर्धारित सीमा नहीं है; तथापि, अधिकतम बीमित राशि बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिमांकन(अंडरराइटिंग) नीति के अनुसार स्वीकृति के अधीन होगी। मूल बीमित राशि **₹10,000** के गुणकों में होगी।

प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए **7, 10, 12, 15 एवं 18 वर्ष** के विकल्प उपलब्ध हैं।

प्रवेश के समय न्यूनतम आयु **30 दिन पूर्ण** होनी चाहिए। प्रवेश के समय अधिकतम आयु **55 वर्ष** है, जो पॉलिसीधारक द्वारा चुनी गई **प्रीमियम भुगतान अवधि** के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।

परिपक्वता के समय न्यूनतम एवं अधिकतम आयु क्रमशः **28 वर्ष (पूर्ण) एवं 75 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)** है।

मौजूदा एलआईसी पॉलिसीधारकों तथा मृत पॉलिसीधारकों के नामितियों/लाभार्थियों के लिए **छूट (Rebate)** उपलब्ध है।

पॉलिसीधारक उपलब्ध विभिन्न **राइडर लाभों** का विकल्प चुनकर बीमा कवरेज को और बढ़ा सकते हैं।

एलआईसी की जीवन रक्षा (प्लान 894 – यूआईएन: 512N368V01)

एलआईसी की जीवन रक्षा एक गैर-भागीदारी (Non-Par), गैर-लिंकड (Non-Linked), शुद्ध जोखिम योजना (Pure Risk Plan) है, जो पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। मृत्यु पर देय लाभ **गारंटीकृत एवं निश्चित** हैं तथा वास्तविक अनुभव के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह पॉलिसी बोनस आदि जैसे किसी विवेकाधीन लाभ अथवा अधिशेष में हिस्सेदारी की हकदार नहीं होगी।

इस योजना के अंतर्गत प्रवेश के समय न्यूनतम एवं अधिकतम आयु क्रमशः **18 वर्ष एवं 45 वर्ष (पिछला जन्मदिन)** है।

परिपक्वता के समय न्यूनतम एवं अधिकतम आयु क्रमशः **33 वर्ष एवं 60 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)** है।

न्यूनतम मूल बीमित राशि **₹5 लाख** तथा अधिकतम **₹24 लाख** है और यह बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिमांकन(अंडरराइटिंग) नीति के अनुसार स्वीकृति के अधीन होगी। ₹5 लाख से ₹7 लाख तक की मूल बीमित राशि **₹50,000** के गुणकों में तथा ₹7 लाख से अधिक की मूल बीमित राशि **₹1,00,000** के गुणकों में होगी।

इस योजना में **एकल प्रीमियम (Single Premium)**, **नियमित प्रीमियम (Regular Premium)** तथा **सीमित प्रीमियम भुगतान (Limited Premium Payment)** के विकल्प उपलब्ध हैं।

इस योजना के अंतर्गत **महिलाओं** के लिए विशेष प्रीमियम दरें उपलब्ध हैं।

उच्च बीमित राशि पर आकर्षक छूट का लाभ भी उपलब्ध है।

बीमा कवरेज को और बढ़ाने के लिए **राइडर विकल्प** भी उपलब्ध हैं।

दोनों उत्पादों की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संबंधित सेल्स ब्रोशर देखें अथवा एलआईसी की वेबसाइट www.licindia.in पर जाएँ।

दोनों योजनाएँ लाइसेंसधारी अभिकर्ताओं, कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं, ब्रोकरों, इश्योरेंस मार्केटिंग फर्मों के माध्यम से ऑफलाइन तथा एलआईसी की वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से सीधे ऑनलाइन खरीदी जा सकती हैं।

एलआईसी की बीमा प्लेटिनम और एलआईसी की जीवन रक्षा योजनाएँ 7 सितंबर, 2026 से उपलब्ध होंगी।

मुंबई में दिनांक 1 सितंबर, 2026 को जारी।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

कार्यकारी निदेशक (निगमित सम्प्रेषण)

भारतीय जीवन बीमा निगम, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

ई-मेल: ed_cc@licindia.com

वेबसाइट: www.licindia.in

हमें विश्वास है कि इस विज्ञप्ति में निहित समाचार आपके पाठकों के लिए उपयोगी होगा। यद्यपि हम इसे यथाशीघ्र प्रकाशित करने के लिए आपका आभार व्यक्त करेंगे, तथापि हम यह भी पूर्णतः स्वीकार करते हैं कि इसे प्रकाशित करने का निर्णय पूर्णतः आपके विवेक पर निर्भर है।